

# ओडिशा के मुख्यमंत्री की सूची (वर्ष 1946 से अब तक)

[S samanyagyan.com/hindi/gk-chief-ministers-of-odisha](http://samanyagyan.com/hindi/gk-chief-ministers-of-odisha)

## ओडिशा के मुख्यमंत्री (1946-2021): (Chief Ministers of Odisha in Hindi)

### ओडिशा सामान्य ज्ञान:

ओडिशा जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा उत्तर में **झारखंड**, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल दक्षिण में **आंध्र प्रदेश** और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। क्षेत्रफल के अनुसार ओडिशा भारत का नौवां और जनसंख्या के हिसाब से ग्यारहवां सबसे बड़ा राज्य है। **ओड़िआ भाषा** राज्य की अधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार ओडिशा की 93.33% जनसंख्या ओड़िआ भाषी है। **ओड़िशा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है।**

### ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक

राजनीतिक दल बीजू जनता दल

प्रथम मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब

### ओडिशा का इतिहास:

प्राचीन काल से मध्यकाल तक ओडिशा राज्य को कलिंग, उत्कल, उत्करात, ओड़, ओद्र, ओड़देश, ओड, ओड़राष्ट्र, त्रिकलिंग, दक्षिण कोशल, कंगोद, तोषाली, छेदि तथा मत्स आदि नामों से जाना जाता था। परन्तु इनमें से कोई भी नाम सम्पूर्ण ओडिशा को इंगित नहीं करता था। अपितु यह नाम समय-समय पर ओडिशा राज्य के कुछ भाग को ही प्रस्तुत करते थे।

वर्तमान नाम ओडिशा से पूर्व इस राज्य को मध्यकाल से 'उड़ीसा' नाम से जाना जाता था, जिसे अधिकारिक रूप से 04 नवम्बर, 2011 को 'ओडिशा' नाम में परिवर्तित कर दिया गया। ओडिशा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द 'ओड़' से हुई है। इस राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के राजा ओड ने की थी, जिन्होंने अपने नाम के आधार पर नवीन ओड-वंश व ओड़ राज्य की स्थापना की। समय विचरण के साथ तीसरी सदी ई0पू0 से ओड़ राज्य पर महामेघवाहन वंश, माठर वंश, नल वंश, विग्रह एवं मुदगल वंश, शैलोदभव वंश, **भौमकर वंश**, नंदोद्भव वंश, सोम वंश, गंग वंश व सूर्य वंश आदि सल्तनतों का आधिपत्य भी रहा। प्राचीन काल में ओडिशा राज्य का वृहद भाग कलिंग नाम से जाना जाता था। ओड़िशा राज्य की स्थापना 01 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थी और इस नये राज्य के अधिकांश नागरिक ओड़िआ भाषी थे। **ओड़िशा में 01 अप्रैल को उत्कल दिवस (ओड़िशा दिवस) के रूप में मनाया जाता है।**

### ओडिशा के मुख्यमंत्री 2019:

वर्ष 1946 से अब तक ओडिशा के 14 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक ने 05 मई 2000 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब थे। **नवीन पटनायक सबसे लम्बे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं।**

### ओडिशा के प्रिमियर:

मुख्यमंत्री का नाम	पदभार ग्रहण	पदमुक्ति	दल/राजनीतिक पार्टी
कृष्ण चन्द्र गजपति	01 अप्रैल 1937	19 जुलाई 1937	निर्दलीय
विश्वनाथ दास	19 जुलाई 1937	04 नवम्बर 1939	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कृष्ण चन्द्र गजपति	29 नवम्बर 1941	29 जून 1941	निर्दलीय

### वर्ष 1946 से अब तक ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की सूची:-

मुख्यमंत्री का नाम	पदभार ग्रहण	पदमुक्ति	दल/राजनीतिक पार्टी
हरेकृष्ण महताब	23 अप्रैल 1946	12 मई 1950	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
नवकृष्ण चौधरी	12 मई 1950	20 फ़रवरी 1952	
	20 फ़रवरी 1952	19 अक्टूबर 1956	
हरेकृष्ण महताब	19 अक्टूबर 1956	06 अप्रैल 1957	
	06 अप्रैल 1957	22 मई 1959	
	22 मई 1959	25 फ़रवरी 1961	

### राष्ट्रपति शासन (25 फ़रवरी 1961 से 23 जून 1961 तक)

बीजू पटनायक	23 जून 1961	02 अक्टूबर 1963	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
बीरेन मित्रा	02 अक्टूबर 1963	21 फ़रवरी 1965	
सदाशिव त्रिपाठी	21 फ़रवरी 1965	08 मार्च 1967	
राजेंद्र नारायण सिंह देव	08 मार्च 1967	09 जनवरी 1971	स्वतंत्र पार्टी

मुख्यमंत्री का नाम	पदभार ग्रहण	पदमुक्ति	दल/राजनीतिक पार्टी
<b>राष्ट्रपति शासन (11 जनवरी 1971 से 03 अप्रैल 1971 तक)</b>			
विश्वनाथ दास	03 अप्रैल 1971	14 जून 1972	निर्दलीय
नंदिनी सत्पथी	14 जून 1972	03 मार्च 1973	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
<b>राष्ट्रपति शासन (3 मार्च 1973 से 6 मार्च 1974 तक)</b>			
नंदिनी सत्पथी	06 मार्च 1974	16 दिसम्बर 1976	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
<b>राष्ट्रपति शासन (16 दिसम्बर 1976 से 29 दिसम्बर 1976 तक)</b>			
बिनायक आचार्य	29 दिसम्बर 1976	30 अप्रैल 1977	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
<b>राष्ट्रपति शासन (30 अप्रैल 1977 से 26 जून 1977 तक)</b>			
नीलमणि राउत्रे	26 जून 1977	17 फ़रवरी 1980	जनता पार्टी
<b>राष्ट्रपति शासन (17 फ़रवरी 1980 से 09 जून 1980 तक)</b>			
जानकी बल्लभ पटनायक	09 जून 1980	10 मार्च 1985	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
	10 मार्च 1985	07 दिसम्बर 1989	
हेमानन्द बिश्वाल	07 दिसम्बर 1989	05 मार्च 1990	
बीजू पटनायक	05 मार्च 1990	15 मार्च 1995	जनता दल
जानकी बल्लभ पटनायक	15 मार्च 1995	17 फ़रवरी 1999	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
गिरिधर गमांग	17 फ़रवरी 1999	06 दिसम्बर 1999	
हेमनन्द बिश्वाल	06 दिसम्बर 1999	05 मार्च 2000	
नवीन पटनायक	05 मार्च 2000	16 मई 2004	बीजू जनता दल

मुख्यमंत्री का नाम	पदभार ग्रहण	पदमुक्ति	दल/राजनीतिक पार्टी
	16 मई 2004	21 मई 2009	
	21 मई 2009	21 मई 2014	
	21 मई 2014	24 मई 2019	
	24 मई 2019	अब तक	

**You just read:** Odisha Ke Mukhyamantriyon Ke Naam, Kaaryakaal Aur Unaki Raajaneetik Party (varsh 1946 Se 2021)